



## RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

रेलवे भर्ती बोर्ड

### RRB ALP & TECHNICIANS 2018

Roll No:	www.govtjobsalert.in
Participants Name:	www.govtjobsalert.in
Test Center Name:	iON Digital Zone iDZ Gram Raigawan Near Patan Bypass
Test Date:	17/08/2018
Test Time:	10:00 AM - 11:00 AM
Subject:	ALP Technicians

- Options shown in green color with a tick icon are correct
- Chosen option on top right of the question indicates the option selected by the candidate

Q.1 एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹ 170 और विक्रय मूल्य ₹ 130 है, छूट की दर ज्ञात कीजिए।

The rate of discount on an article whose marked price is ₹ 170 and selling price is ₹ 130 is:

- Ans
- 1. 23.60%
  - 2. 24.26%
  - 3. 23.53%
  - 4. 22.45%

Question ID : 9864492548

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.2 पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था?

Which team did India defeat in the final of the 2017 Men's Asia Cup Hockey to claim the title?

- Ans
- 1. पाकिस्तान  
Pakistan
  - 2. बांग्लादेश  
Bangladesh
  - 3. मलेशिया  
Malaysia
  - 4. चीन  
China

Question ID : 9864492299

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.3 एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहीत रहती है?

The energy stored in a dry cell is in the form of:

- Ans
- 1. गतिज ऊर्जा  
Kinetic energy
  - 2. रसायनिक ऊर्जा  
Chemical energy
  - 3. स्थितिज ऊर्जा  
Potential energy
  - 4. नाभिकीय ऊर्जा  
Nuclear energy

Question ID : 9864493561

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.4 उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या दर्शाता है।



Select the option that represents the number of triangles in the following figure.



- Ans
- 1. 3
  - 2. 4
  - 3. 6
  - 4. 5

Question ID : 9864494011

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.5 उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है।



1      2      3      4

Select the letter which does NOT belong to the group.



1      2      3      4

- Ans
- 1. 4
  - 2. 1
  - 3. 2
  - 4. 3

Question ID : 9864493684

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.6 वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने 'दी सिल्क रोड एन्सेम्बल' समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था?

Which Indian tabla player won the Grammy Award for his collaborative music with 'The Silk Road Ensemble' group in 2017?

- Ans
- 1. योगेश समसी  
Yogesh Samsi
  - 2. ज़ाकिर हुसैन  
Zakir Hussein
  - 3. संदीप दास  
Sandeep Das
  - 4. रिम्पा शिवा  
Rimpa Shiva

Question ID : 9864492333

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.7 60 का 15 % \_\_\_\_\_ के 45% के बराबर है।

15% of 60 is 45% of \_\_\_\_\_

- Ans
- 1. 30
  - 2. 180
  - 3. 40

Question ID : 9864492746

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.8 दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएँ कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है/हैं।

श्री राजेश किस वर्ष में पैदा हुए थे?

कथन:

1. वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटे हैं।
2. श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उनके पिता से 35 साल छोटी है।

Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

What is the birth year of Mr. Rajesh?

Statements:

1. At present Mr. Rajesh is 25 years younger to his father
2. Mr. Rajesh's sister who was born on 1974 is 35 years younger to his father

Ans ✓ 1.

कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं

Both statements 1 and 2 are sufficient

✗ 2.

केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 1 अपर्याप्त है

Statement 2 alone is sufficient while 1 alone is insufficient

✗ 3.

केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि केवल कथन 2 अपर्याप्त है

Statement 1 alone is sufficient while statement 2 alone is insufficient

✗ 4.

कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है

Either statement 1 or 2 is sufficient

Question ID : 9864493702

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.9 प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है?

The essential organs in a flower for reproduction are:

Ans

✓ 1. पुंकेसर और स्त्रीकेसर

the stamen and pistil

✗ 2. बाह्यदल और पुंकेसर

the sepal and stamen

✗ 3. बाह्यदल और पंखुड़ियाँ

the sepal and petal

✗ 4. पंखुड़ियाँ और स्त्रीकेसर

the petal and pistil

Question ID : 9864493077

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.10 एक पौधे में, इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है ?

In a plant, which of the following is converted into seed?

Ans

✓ 1. बीजाणु

ovule

✗ 2. अंडाशय

ovary

Question ID : 9864493298

Status : Not Answered

Chosen Option : --

3. वर्तिका  
style

4. वर्तिकाग्र  
stigma

Q.11  $\frac{3}{2}$  प्राप्त करने के लिए  $\frac{2}{3}$  में कितना जोड़ने की आवश्यकता है?

How much does one need to add to  $\frac{2}{3}$  to obtain  $\frac{3}{2}$ ?

Question ID : 9864493022

Status : Answered

Chosen Option : 4

- Ans
- 1.  $\frac{4}{9}$
  - 2.  $\frac{1.5}{6}$
  - 3.  $\frac{1}{-1}$
  - 4.  $\frac{5}{6}$

Q.12 तय करें कि कथन में दी गई जानकारी से प्राप्त कौन-सा अनुमान तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है।

कथन:

एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क-दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था।

अनुमान:

1. वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी।
2. वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं हैं।

Consider the argument and decide which of the given assumptions is/are implicit.

Argument:

A mother is crying in the hospital as her only son died in a road accident while driving his bike.

Assumptions:

1. The mother thinks it's her son's fault.
2. The mother thinks that God is not with her.

Ans

अनुमान 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं

Both 1 and 2 are implicit

न को अनुमान 1 अनुसरण करता है और न ही 2

Neither 1 nor 2 is implicit

केवल अनुमान 2 अनुसरण करता है

Only assumption 2 is implicit

मात्र अनुमान 1 अनुसरण करता है

Only assumption 1 is implicit

Question ID : 9864493885

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.13 अक्षर समूहों के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन करें।

BEAK : EIFQ :: SAIL : \_\_\_\_\_

Select the missing term from the related pair of letter clusters.

BEAK : EIFQ :: SAIL : \_\_\_\_\_

Ans

1. VERN

Question ID : 9864493923

Status : Answered

Chosen Option : 2

- ✓ 2. VENR
- ✗ 3. RENV
- ✗ 4. VREN

Q.14 वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा?

The calendar for the year 2020 will be the same for the year:


- Ans
- ✗ 1. 2076
  - ✓ 2. 2044
  - ✗ 3. 2096
  - ✗ 4. 2040

Question ID : 9864492574


Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.15 दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करें।



Complete the following figure with the correct option.



Ans

- ✗ 1.
- ✗ 2.
- ✓ 3.
- ✗ 4.

Question ID : 9864494029

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.16 इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है ?

Which of the following glows with special colour depending on the nature of gas in the fluorescent tube?

- Ans
- ✗ 1. हीलियम  
Helium
  - ✗ 2. हाइड्रोजन  
Hydrogen

Question ID : 9864493288

Status : Not Answered

Chosen Option : --

3. बोस-आइंस्टाइन संघनन  
Bose-Einstein condensate
4. प्लाज़्मा  
Plasma

Q.17 किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है:

A sound of single frequency is called a:

- Ans
1. हर्ट्ज़  
Hertz
2. पिच  
Pitch
3. नोट  
Note
4. टोन  
Tone

Question ID : 9864493503  
Status : Answered  
Chosen Option : 1

Q.18 6561 का वर्गमूल क्या होगा?

What is the square root of 6561?

- Ans
1. 81
2. 77
3. 89
4. 79

Question ID : 9864492743  
Status : Answered  
Chosen Option : 1

Q.19 क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वज़न वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा, यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो?

What will be the force of attraction between two bodies weighing 20 kg and 50 kg, respectively, with a distance of 2 metre between them?

- Ans
1.  $16.67 \times 5^{-10}$  N
2.  $6.67 \times 10^{-11}$  N
3.  $16.675 \times 10^{-11}$  N
4.  $166.75 \times 10^{-10}$  N

Question ID : 9864493380  
Status : Not Answered  
Chosen Option : --

Q.20 चार संख्याएँ A, B, C और D इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है। A और B का औसत 9.5 है। C और D का औसत क्या होगा?

Four numbers A, B, C and D are such that their overall average is 16. The average of A and B is 9.5. The average of C and D is:

- Ans
1. 22.5
2. 23
3. 25.5
4. 21.5

Question ID : 9864492818  
Status : Not Answered  
Chosen Option : --

Q.21 एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में  $2\frac{2}{3}$  का समय लग जाता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है?

A pipe can fill a sump with water in 2 hours. Because of a leak, it took  $2\frac{2}{3}$  hours to fill the sump. The leak can drain all the water of the sump in:

- Ans
1. 6 घंटे  
6 hours

Question ID : 9864492492  
Status : Answered  
Chosen Option : 3

2. 11 घंटे  
11 hours
3. 8 घंटे  
8 hours
4. 15 घंटे  
15 hours

Q.22 'P' वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, कि 'P' से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक N को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 'P' है:  
'P' is the smallest positive integer such that every positive integer N greater than 'P' can be written as a sum of two composite numbers. Then 'P' is:

Question ID : 9864492604

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- Ans
1. 3
2. 11
3. 6
4. 10

Q.23 5442673314884743581 सीरिज में, दाईं ओर से सातवें पद के बाएं से छठी संख्या कौन सी है:  
In the series 5442673314884743581, the number that is sixth from the left of the seventh term from the right is:

Question ID : 9864494385

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- Ans
1. 3
2. 7
3. 4
4. 1

Q.24 किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है-  
The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called:

Question ID : 9864493199

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- Ans
1. वेग  
velocity
2. बल  
force
3. संवेग  
momentum
4. जड़त्व  
inertia

Q.25 फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था?  
Which Indian won the 2017 French Open Super series tournament?

Question ID : 9864492250

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- Ans
1. जॉर्ज थॉमस  
George Thomas
2. अनिलकुमार राजू  
Anilkumar Raju
3. श्रीकांत किदंबी  
Srikanth Kidambi
4. दीपंकर भट्टाचार्य  
Dipankar Bhattacharya

Q.26 वृद्धि हार्मोन कार्य करता है:

Growth hormones function:

Ans

1. हमेशा विकास अवरोधक के रूप में  
always as growth inhibitors
2. हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में  
always as growth promoters
3. कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में  
rarely as growth promoters

4.

कभी-कभी विकास प्रोत्साहक और कभी-कभी विकास अवरोधक के रूप में  
sometimes as growth promoters and sometimes as growth inhibitors

Question ID : 9864493136

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.27 कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मज़बूत बनाता है ?

Which permanent tissue makes a plant hard and stiff?

Ans

1. स्कलेरेनकाइमा  
Sclerenchma
2. एरेनकाइमा  
Aerenchyma
3. पैरेनकाइमा  
Parenchyma
4. कोलेनकाइमा  
Collenchymas

Question ID : 9864493255

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.28  $\frac{\sin 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ} + \frac{1 + \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = ?$

$\frac{\sin 30^\circ}{1 + \cos 30^\circ} + \frac{1 + \cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = ?$

Ans

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question ID : 9864492877

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.29 फरवरी 2018 से, नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन हैं?

As of February 2018, who is the India-born CEO of the Nokia company?

Ans

1. राजीव सूरी  
Rajeev Suri
2. सुंदर पिचई  
Sundar Pichai
3. सत्य नडेला  
Satya Nadella
4. अजयपाल सिंह बंगा  
Ajaypal Singh Banga

Question ID : 9864492174

Status : Answered

Chosen Option : 4



Q.30 X की ओर संकेत करते हुए, Y कहता है, "X ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है।"

फिर Y X का \_\_\_\_\_ है।

Pointing at X, Y says, "X is the son of the only son of my mother". Then Y is X's \_\_\_\_\_.

Ans

- 1. भाई  
Brother
- 2. ससुर  
Father-in-law
- 3. पिता  
Father
- 4. दादा  
Grandfather

Question ID : 9864493908

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.31 एक प्रसारण केंद्र  $71 \times 10^4$  Hz की आवृत्ति और  $3 \times 10^8$  मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य है:

A broadcasting station transmits waves with a frequency of  $71 \times 10^4$  Hz and a speed of  $3 \times 10^8$  m/s. The wavelength of the wave is:

Ans



- 1. 324.6 मीटर  
324.6 m
- 2. 418.8 मीटर  
418.8 m
- 3. 208.4 मीटर  
208.4 m
- 4. 422.5 मीटर  
422.5 m

Question ID : 9864493104



Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.32 मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र B में दिए गए प्रश्न चिह्न (?) को बदल सकता है।



Assuming that the numbers in each of the following figures follow a similar pattern, select the option that can replace the question mark (?) in figure B.



Ans

- 1. 127
- 2. 136
- 3. 142
- 4. 128

Question ID : 9864494259

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.33 निम्नलिखित से विषम की पहचान करें:

Identify the odd one out from the following:

Ans

- 1. वायु  
Air
- 2. दूध  
Milk

Question ID : 9864493407

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- 3. मिश्र धातु  
Alloy
- 4. जल  
Water

Q.34 किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है?

What enables an electric current to flow in a circuit?

Ans

- 1. पॉज़िट्रॉन की गति  
The motion of positrons
- 2. न्यूट्रॉन की गति  
The motion of neutrons
- 3. प्रोटॉन की गति  
The motion of protons
- 4. इलेक्ट्रॉनों की गति  
The motion of electrons


Question ID : 9864493325

Status : Answered


Chosen Option : 4

Q.35 कौन सी उत्तर-आकृति (Answer Figure) दी गई प्रश्न-आकृति (Problem Figure) का सही दर्पण प्रतिबिंब है?

Problem Figure




Answer Figures




Which of the Answer Figures is the correct mirror image of the given Problem Figure?

Problem Figure



Answer Figures



Ans

- 1. B
- 2. C
- 3. A
- 4. D

Question ID : 9864494063

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.36 X, 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है तो X द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या \_\_\_\_\_ है।

X attempts 94 questions and gets 141 marks. If for every correct answer 4 marks is given, and for every wrong answer 1 mark is deducted, then the number of questions wrongly answered by X is \_\_\_\_\_.

Question ID : 9864494021

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- Ans
- 1. 45
  - 2. 57
  - 3. 47
  - 4. 40

Q.37 विभिन्न पार्टियों द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्रम.सं.	पार्टी	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर
1	A	40	37	35	27
2	B	6	26	76	86
3	C	83	71	4	21
4	D	1	7	3	11

तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें।

पार्टी B ने \_\_\_\_\_ क्षेत्र से सबसे ज्यादा सीटें जीतीं।

Parties and the seats won by them are listed in the following table.

S. No.	Party	South	East	West	North
1	A	40	37	35	27
2	B	6	26	76	86
3	C	83	71	4	21
4	D	1	7	3	11

Based on the given data, complete the following sentence:

Party B won the largest number of seats from the \_\_\_\_\_.

- Ans
- 1. दक्षिण  
South
  - 2. उत्तर  
North
  - 3. पश्चिम  
West
  - 4. पूर्व  
East

Q.38 कितने समय में ₹ 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर ₹ 4576 हो जायेंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है?

In what time will ₹ 4400 become ₹ 4576 at 8% per annum interest compounded half-yearly?

- Ans
- 1. 7 माह  
7 months
  - 2. 1 वर्ष  
1 year
  - 3. 2 वर्ष  
2 years
  - 4. 6 माह  
6 months

Question ID : 9864494126

Status : Answered

Chosen Option : 2

Question ID : 9864492546

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.39

Question ID : 9864493838

Status : Not Answered

निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है

Chosen Option : --

**कथन:**

जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते, कंपनी मुनाफ़ा नहीं कमा सकती।

**निष्कर्ष:**

1. कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए।
2. प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए।

Decide which of the conclusions logically follow(s) from the information given in the statement.

**Statement:**

A company cannot make profit unless both, management and employees work together.

**Conclusions:**

1. The workers should be advised to cooperate with the management.
2. The management must be advised to cooperate with the employees.

Ans

1. केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है  
Only conclusion 2 follows
2. केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है  
Only conclusion 1 follows
3. न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है  
Neither 1 nor 2 follows
4. 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं  
Both 1 and 2 follow

Q.40 निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 'नौ रत्न' में से एक नहीं था?

Who among the following was NOT one of the 'Nine Gems' of Emperor Akbar's court?

Ans

1. अबुल-फजल इब्न मुबारक  
Abu'l-Fazl ibn Mubarak
2. फकीर अजिओ-दिन  
Fakir Aziao-Din
3. उस्मान अली खान  
Osman Ali Khan
4. राजा टोडर मल  
Raja Todar Mal

Question ID : 9864492093

Status : Not Answered


Chosen Option : --

Q.41


Question ID : 9864494130

Status : Not Answered

Chosen Option : --



दिए गए चित्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके यदि तीन समूहों में विभाजित किया जाये तो ये तीनों समूह निम्न में से कौन होंगे?



If three groups could be formed using the given figures only once, these groups would be

Ans

- 1. (2, 9, 6), (3, 4, 7) और (1, 5, 8)  
(2, 9, 6), (3, 4, 7) and (1, 5, 8)
- 2. (1, 9, 4), (3, 4, 6) और (2, 5, 8)  
(1, 9, 4), (3, 4, 6) and (2, 5, 8)
- 3. (1, 9, 6), (3, 4, 7) और (2, 5, 8)  
(1, 9, 6), (3, 4, 7) and (2, 5, 8)
- 4. (1, 9, 6), (3, 5, 7) और (2, 4, 8)  
(1, 9, 6), (3, 5, 7) and (2, 4, 8)

Q.42 दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में कौन सा कथन पर्याप्त है।

Question ID : 9864494103

Status : Not Answered

Chosen Option : --

पांच व्यक्ति P, Q, R, S तथा T किसी पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति के मध्य में कौन है?

कथन:

1. T के बायीं ओर Q है।
2. P और T के मध्य में S है।

Consider the given question and decide which of the following statements is sufficient to answer the question.

Five people, P, Q, R, S and T, are standing in a line; who is in the middle?

Statements:

1. Q is to the left of T.
2. S is in between P and T.

Ans

- 1. कथन 2 अकेला ही उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है परन्तु कथन 1 अकेला ही उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है।  
2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient to answer the given question.
- 2. कथन 1 और कथन 2 दोनों ही उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है।  
Both 1 and 2 are sufficient to answer the given question.
- 3. कथन 1 अकेला ही उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है परन्तु कथन 2 अकेला ही उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है।  
1 alone is sufficient while 2 alone is not sufficient to answer the given question.

✓ 4.

ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 उपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है।  
Neither 1 nor 2 is sufficient to answer the given question.

Q.43 pH मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है:

The pH value increase from 7 to 14 represents a:

Ans

✓ 1.

OH<sup>-</sup> आयन सांद्रता में वृद्धि

increase in OH<sup>-</sup> ion concentration

✗ 2.

H<sup>+</sup> आयन सांद्रता में वृद्धि

increase in H<sup>+</sup> ion concentration

✗ 3.

OH<sup>-</sup> आयन सांद्रता में कमी

decrease in OH<sup>-</sup> ion concentration

✗ 4.

H<sup>+</sup> आयन सांद्रता में कमी

decrease in H<sup>+</sup> ion concentration

Question ID : 9864493330

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.44 नीचे दिए गए कथनों को सही मानें और यह निर्णय करें कि कथनों से कौन से निष्कर्षों का तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है।

कथन:

कोई भी आम संतरा नहीं है। कोई भी संतरा सेब नहीं है। कुछ आम सेब है।

निष्कर्ष:

1. कोई भी सेब आम नहीं है।
2. कोई भी सेब संतरा नहीं है।
3. कुछ संतरे आम है।
4. सभी सेब आम है।

Consider the given statements to be true and decide which of the conclusions logically follow(s) from the statements.

Statement:

No mango is an orange. No orange is an apple. Some mangoes are apples.

Conclusions:

1. No apple is a mango.
2. No apple is an orange.
3. Some oranges are mangoes.
4. All apples are mangoes.

Ans

✗ 1.

केवल निष्कर्ष 2 और 3 दोनों का पालन हो रहा है

Only conclusion 2 and 3 follow

✗ 2.

केवल निष्कर्ष 1 या 3 का पालन हो रहा है

Only conclusion 1 or 3 follow

✗ 3.

केवल निष्कर्ष 1 का पालन हो रहा है

Only conclusion 1 follows

✓ 4.

केवल निष्कर्ष 2 का पालन हो रहा है

Only conclusion 2 follows

Question ID : 9864493667

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.45 यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत् धारा  $I$  है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश  $e$  है, तो  $t$  सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है?

If  $I$  is the current through a wire and  $e$  is the charge of an electron, then the number of electrons crossing in  $t$  seconds will be given by:

Ans

✗ 1.  $Ite$

Question ID : 9864493106

Status : Not Answered

Chosen Option : --

✓ 2. It/e

✗ 3. e/It

✗ 4. Ie/t

Q.46 दिए गए वर्ण समूहों के संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाइए।

RAMA : MARA :: SITA : \_\_\_\_\_

Find the missing term for the related pair of letter clusters.

RAMA : MARA :: SITA : \_\_\_\_\_

Ans ✓ 1. TISA

✗ 2. TSAI

✗ 3. TIAS

✗ 4. SIAT

Question ID : 9864493746

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.47 दी गई संख्या श्रंखला से अनुपस्थित संख्या का चयन करें।

4, 9, 20, 44, ?

Select the number missing from the given number series.

4, 9, 20, 44, ?

Ans ✗ 1. 90

✓ 2. 95

✗ 3. 100

✗ 4. 80

Question ID : 9864494273

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.48 निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है ?

Which of the following salts is acidic in nature?

Ans ✗ 1. मैग्नीशियम सल्फेट  
Magnesium Sulphate

✗ 2. अमोनियम फॉस्फेट  
Ammonium Phosphate

✗ 3. सोडियम एसीटेट  
Sodium Acetate

✓ 4. सोडियम कार्बोनेट  
Sodium Carbonate

Question ID : 9864493449

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.49 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है ?

Which of the following metals does NOT react with cold or hot water?

Ans ✓ 1. एल्युमीनियम  
Aluminium

✗ 2. सोडियम  
Sodium

✗ 3. कैल्शियम  
Calcium

Question ID : 9864493311

Status : Not Answered

Chosen Option : --

4. पोटेशियम  
Potassium

Q.50 दी गई प्रश्न-आकृति (Problem Figure) दी गई उत्तर-आकृतियों (Answer Figures) में से एक में सम्मिलित है। वह उत्तर-आकृति कौन सी है?

Question ID : 9864494081

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Problem Figure



Answer Figures




A B C D

The given Problem Figure is embedded in one of the given Answer Figures. Which is that Answer Figure?

Problem Figure



Answer Figures



A B C D

- Ans
- 1. D
  - 2. A
  - 3. B
  - 4. C

Q.51 मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग (एफ.सी.सी.) का अध्यक्ष कौन भारतीय-अमेरिकी है?

Question ID : 9864492425

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Which Indian-American is the chairman of the prestigious Federal Communications Commission (FCC) of the United States as of March 2018?

- Ans
- 1. नेओमी राव  
Neomi Rao
  - 2. अजित पई  
Ajit Pai
  - 3. सीमा वर्मा  
Seema Verma
  - 4. नील चटर्जी  
Neil Chatterjee

Q.52 आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है?

Question ID : 9864493533

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Metals are placed on which side of the Modern Periodic Table?

- Ans
- 1. निचली पंक्ति  
Bottom row
  - 2. बायीं ओर  
Left side
  - 3. ऊपरी पंक्ति  
Top row
  - 4. दायीं ओर  
Right side



Q.53 यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो  $\cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C + \cos^2 D$  का मान क्या होगा?

If ABCD is a Cyclic Quadrilateral, then the value of  $\cos^2 A - \cos^2 B - \cos^2 C + \cos^2 D$  is:

- Ans
- 1. 1
  - 2. 0
  - 3. 2
  - 4. -1

Question ID : 9864492556

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.54 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी

कार्य के तीन गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?

A piece of work can be done by 16 men in 8 days working 12 hours a day. How many men are needed to complete another work, which is three times the first one, in 24 days working 8 hours a day?

- Ans
- 1. 23 पुरुष
  - 2. 23 men
  - 3. 22 पुरुष
  - 4. 22 men
  - 5. 25 पुरुष
  - 6. 25 men
  - 7. 24 पुरुष
  - 8. 24 men

Question ID : 9864492449

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.55 एक वाट = ?

One Watt = ?

- Ans
- 1. 1 अर्ग प्रति सेकंड
  - 2. 1 erg/sec
  - 3. 1 जूल प्रति सेकंड
  - 4. 1 Joule/sec
  - 5. 1 मीटर प्रति सेकंड
  - 6. 1 m/s
  - 7. 1 पास्कल प्रति सेकंड
  - 8. 1 Pascal/sec

Question ID : 9864493502

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है:

The credit for classifying the elements on the basis of their atomic masses goes to:

- Ans
- 1. डमित्री मेंडेलीव
  - 2. Dmitri Mendeleev
  - 3. जॉन डॅल्टन
  - 4. John Dalton
  - 5. जॉहान वुल्फगैंग डॉबरीनर
  - 6. Johann Wolfgang Dobereiner
  - 7. जॉन एलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स
  - 8. John Alexander Reina Newlands

Question ID : 9864493214

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.57 मास्टरकार्ड (MasterCard) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष (2018 से) कौन हैं?

As of 2018, who is the CEO and president of MasterCard?

Ans

- ✗ 1. प्रभजोत सिंह  
Prabhjot Singh
- ✗ 2. वारिस अहलुवालिया  
Waris Ahluwalia
- ✗ 3. दर्श सिंह  
Darsh Singh
- ✓ 4. अजयपाल सिंह बंगा  
Ajaypal Singh Banga

Question ID : 9864492348

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.58 वह पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें जीतीं वह \_\_\_\_\_ है।

पार्टियाँ और जीती गईं सीटें					
क्रम सं.	पार्टी	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर
1	A	40	37	35	27
2	B	6	26	76	86
3	C	83	71	4	21
4	D	1	7	3	11

The Party which won the highest number of seats is \_\_\_\_\_.

Parties and seats won					
Serial No.	Party	South	East	West	North
1	A	40	37	35	27
2	B	6	26	76	86
3	C	83	71	4	21
4	D	1	7	3	11

Ans

- ✗ 1. A
- ✓ 2. B
- ✗ 3. D
- ✗ 4. C

Question ID : 9864493888

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.59

Question ID : 9864493682

Status : Answered


Chosen Option : 4

नीचे दिए गए चार चित्रों में से, नीचे दिए गए चित्र की पानी में सही छवि का चयन करें।

Problem Figure



Answer Figures



Problem Figure (प्रश्न-आकृति)


Answer Figure (उत्तर-आकृति)

From the given four figures choose the correct water image of the below figure.

Problem Figure



Answer Figures



- Ans
- 1. C
  - 2. A
  - 3. B
  - 4. D

Q.60 निम्न हल करें:

$$36 - [18 - \{14 - (15 - 4 \div 2 \times 2)\}]$$

Solve the following:

$$36 - [18 - \{14 - (15 - 4 \div 2 \square 2)\}]$$

- Ans
- 1. 21
  - 2. 20
  - 3. 23
  - 4. 22

Question ID : 9864492579

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.61 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है?

The least number to be added to 435 to make it a perfect square is?

- Ans
- 1. 8
  - 2. 4
  - 3. 3
  - 4. 6

Question ID : 9864492560

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.62 ऐसी कौन से धातु आक्साइड हैं जो अम्लों के साथ-साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं?

Metal oxides which react with acids as well as bases are called:

- Ans
- 1. क्षारीय ऑक्साइड  
Basic oxides
  - 2. एम्फोटेरिक ऑक्साइड  
Amphoteric oxides
  - 3. अम्लीय ऑक्साइड  
Acidic oxides

Question ID : 9864493212

Status : Not Answered

Chosen Option : --

4. न्यूट्रल ऑक्साइड

Neutral oxides

Q.63 कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है?  
Which Indian state is the largest producer of Soyabean?

Question ID : 9864492108

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Ans

1. अरुणाचल प्रदेश

Arunanchal Pradesh

2. हिमाचल प्रदेश

Himachal Pradesh

3. मध्य प्रदेश

Madhya Pradesh

4. आंध्र प्रदेश


Andhra Pradesh

Q.64 उस विकल्प का चयन करें, जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर आएगा।


Question ID : 9864494237

Status : Not Answered

Chosen Option : --



Select the option that will correctly fit in the blank space in the given figure series.



Ans

1.

2.

3.

4.

Q.65

Question ID : 9864494067

Status : Answered

Chosen Option : 2

दिये गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

**कथन:**

कुछ बढ़ई प्लंबर हैं। कुछ प्लंबर दिहाड़ी मजदूर हैं।

**निष्कर्ष:**

1. कुछ प्लंबर बढ़ई हैं।
2. कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लंबर हैं।

Consider the given statements to be true and decide which of the conclusions logically follow(s) from the statements.

**Statements:**

Some carpenters are plumbers. Some plumbers are daily wage labourers.

**Conclusions:**

1. Some plumbers are carpenters.
2. Some daily wage labourers are plumbers.

Ans

- ✗ 1. न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है।  
Neither 1 nor 2 follows.
- ✓ 2. 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं।  
Both 1 and 2 follow.
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।  
Only conclusion 2 follows.
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।  
Only conclusion 1 follows.

Q.66 "D E M N" के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा:

If all the letters "D E M N" are arranged to form a meaningful word then the last letter of the word will be:

Ans

- ✗ 1. M
- ✓ 2. D
- ✗ 3. E
- ✗ 4. N

Question ID : 9864493779

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.67 यदि जेम्स और राधा के बीच में ₹ 87 को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे?

If ₹ 87 was divided between James and Radha in the ratio 1 : 2, how much money did Radha get?

Ans

- ✓ 1. ₹ 29
- ✗ 2. ₹ 57
- ✗ 3. ₹ 59
- ✗ 4. ₹ 58

Question ID : 9864492946

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.68 यदि  $x^2 + kx + k = 0$  का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा?

If  $x^2 + kx + k = 0$  has no solution, then the value of k will satisfy:

Ans

- ✓ 1.  $0 < k < 4$
- $0 < k < 4$

Question ID : 9864492816

Status : Not Answered

Chosen Option : --

- ✗ 2.  $k < 4$   
 $k < 4$   
 ✗ 3.  $k > 4$   
 $k > 4$   
 ✗ 4.  $k > -4$   
 $k > -4$

Q.69 2017 में अमेरिका-भारत व्यापारिक परिषद (यू.एस.आई.बी.सी.) द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को 'ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया?  
 Which Indian chief minister was awarded the 'Transformative Chief Minister Award' by US-India Business Council (USIBC) in 2017?

Question ID : 9864492357


Status : Not Answered

Chosen Option : --


Ans

- ✗ 1. नवीन पटनायक  
 Naveen Patnaik  
 ✗ 2. सिद्धरामैया  
 Siddaramaiah  
 ✓ 3. चंद्रबाबू नायडु  
 Chandrababu Naidu  
 ✗ 4. के चंद्रशेखर राव  
 K. Chandrashekhara Rao

Q.70 उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन चित्र का प्रतिनिधित्व करता है।



Select the correct set that represents the following Venn diagram.



Ans

- ✓ 1. चपरासी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति  
 Office boys, government employees, educated person  
 ✗ 2. डॉक्टर, मनुष्य, गाय  
 Doctors, human beings, cows  
 ✗ 3. पुरुष, पिता, डॉक्टर  
 Males, fathers, doctors  
 ✗ 4. बिल्ली, खिलौने, लड़की  
 Cat, toys, girl

Question ID : 9864494160

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.71 दो पाइप A और B किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। पाइप C पूरे भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप A और C को चालू किया गया। कुछ घंटों के बाद पाइप A को बंद कर दिया गया और पाइप B को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप B को कितने घंटे चलाया गया?

Question ID : 9864492811

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Two pipes A and B can fill an empty cistern in 18 and 27 hours, respectively. Pipe C can drain the entire cistern in 45 hours when no other pipe is in operation. Initially, when the cistern was empty Pipe A and Pipe C were turned on. After a few hours Pipe A was turned off and Pipe B was turned on instantly. In all, it took 55 hours to fill the cistern. For how many hours was Pipe B turned on?

Ans

- ✗ 1. 30

✗ 2. 27

✓ 3. 45

✗ 4. 50

Q.72 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है। 18 अप्रैल, 2019 को कौन सा दिन होगा?

15<sup>th</sup> February 2018 is a Thursday. On what day will 18<sup>th</sup> April 2019 fall?

Ans

✓ 1. शनिवार  
Saturday

✗ 2. बुधवार  
Wednesday

✗ 3. शुक्रवार  
Friday

✗ 4. गुरुवार  
Thursday

Question ID : 9864493034

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.73 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास 'सीता: वॉरियर ऑफ मिथिला' का लेखक कौन है?

Who is the author of the Indian English Novel 'Sita: Warrior of Mithila' published in 2017?

Ans

✗ 1. चेतन भगत  
Chetan Bhagat

✓ 2. अमिश त्रिपाठी  
Amish Tripathi

✗ 3. रॉबिन शर्मा  
Robin Sharma

✗ 4. राहुल मेहता  
Rahul Mehta

Question ID : 9864492201

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.74 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष (2, 4), (-3, -1) और (5, 3) दिए हुए हों:

The area of the triangle whose vertices are given by (2, 4), (-3, -1) and (5, 3) is:

Ans

✗ 1. 20 वर्ग इकाईयां  
20 sq. units

✗ 2. 14 वर्ग इकाईयां  
14 sq. units

✓ 3. 10 वर्ग इकाईयां  
10 sq. units

✗ 4. 7 वर्ग इकाईयां  
7 sq. units

Question ID : 9864492855

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.75 576 का वर्गमूल क्या है ?

What is the square root of 576?


Ans ✗ 1. 26

Question ID : 9864492663

Status : Answered

Chosen Option : 4

 2. 36

 3. 34

 4. 24

[www.govtjobsalert.in](http://www.govtjobsalert.in)